

**जनपदीय एसओजी व थाना श्रीनगर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा अवैध तमंचा व कारतूस का निर्माण/व्यापार करने वाले 02 नफर**

**अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, कब्जे से 05 अदद देशी तमंचा व 03 जिन्दा कारतूस सहित 01 बाइक बरामद ।**

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन पर जनपद में आगामी त्यौहारों के दौरान कानून व्यवस्था को अक्षुण्ण बनाये रखने हेतु जनपद में अवैध शस्त्रों की बरामदगी व अवैध शस्त्र धारक अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे सघन चेकिंग/गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 22.03.2023 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर.के. गौतम व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री अजय कुमार अग्रवाल के निकट पर्यवेक्षण में जनपदीय स्वाट टीम प्रभारी श्री नन्हेलाल यादव व थानाध्यक्ष श्रीनगर श्री गणेश कुमार गुप्ता के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा बिलखी तिराहा मंदिर के पास से 02 नफर अभियुक्तगण 1.गोलू राठौर पुत्र बैजनाथ राठौर उम्र 22 वर्ष 2.देवेन्द्र यादव पुत्र जयहिन्द यादव उम्र 25 वर्ष को नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया, जिनके कब्जे से क्रमशः अभियुक्त गोलू राठौर के कब्जे से 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व अभियुक्त देवेन्द्र यादव के कब्जे से 04 अदद तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कार0 315 बोर बरामद हुआ । बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना स्थानीय पर क्रमशः मु.अ.स. 56/23 व 57/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया । गिरफ्तार अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेशी उपरान्त जेल भेजा गया ।

### गिरफ्तार अभियुक्त-

- 1.गोलू राठौर पुत्र बैजनाथ राठौर उम्र 22 वर्ष ग्राम स्वासामाफ थाना चरखारी महोबा
- 2.देवेन्द्र यादव पुत्र जयहिन्द यादव उम्र 25 वर्ष ग्राम स्वासामाफ थाना चरखारी महोबा
- 3.सतीश विश्वकर्मा पुत्र अज्ञात निवासी हरपालपुर जनपद छतरपुर म.प्र (प्रकाश में आया हुआ)

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.थानाध्यक्ष श्री गणेश कुमार 2.व0उ0नि0 कन्हैयालाल
- 3.उ0नि0 शशांक देव शुक्ला 4.हे0का0 राघवेन्द्र सिंह 5. का0 राजेश कुमार सिंह

### जनपदीय स्वाट टीम-

- 1.प्रभारी स्वाट टीम नन्हेलाल यादव 2. उ0नि0 राहुल परमार प्रभारी सर्विलांस सेल
- 3.उ0नि0 बृजेन्द्र सिंह 4.मु0आ0 शरत कुमार सिंह सर्विलांस सेल 5.का0 नरेन्द्र सिंह
- 6.का0 रंजीत सिंह स्वाट टीम महोबा

**बरामदगी-** 05 अदद देशी तमंचा/ 03 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व 01 बाइक बरामद



**पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा साइबर सम्बन्धी अपराधों की रोकथाम/बचाव हेतु 02 दिवसीय साइबर प्रशिक्षण कार्यशाला का किया गया शुभारंभ, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट डॉ० रक्षित टंडन द्वारा जनपद महोबा में नियुक्त पुलिसकर्मियों को दिया गया साइबर प्रशिक्षण**

साइबर अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने व साइबर अपराधों की गुणवत्तापूर्ण विवेचना करने, कार्य क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से अपर पुलिस महानिदेशक, प्रयागराज जोन, प्रयागराज श्री भानु भास्कर के निर्देशन पर चलाए जा रहे साइबर प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत आज दिनांक 22.03.2023 को पुलिस लाइन महोबा अवस्थित सभाकक्ष में 02 दिवसीय साइबर प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता द्वारा साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट डॉ. रक्षित टण्डन को पुष्पगुच्छ भेंट कर किया गया।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता द्वारा बताया गया कि जनपद में साइबर अपराधों पर प्रभावी रोकथाम लगाने व सम्बन्धित अपराधों की शिकायतों को लेकर थाने पर आने वाले शिकायतकर्ताओं की समस्याओं के अविलम्ब निस्तारण के उद्देश्य से साइबर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया।

साइबर विशेषज्ञ डॉ० रक्षित टंडन द्वारा बताया गया कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पुलिस को साइबर अपराधों से निपटने के दृष्टिगत अधिक सक्षम व दक्ष बनाने, साइबर अपराध से पीड़ित व्यक्ति को त्वरित सहायता प्रदान करने व साइबर अपराधों की गुणवत्तापूर्ण विवेचना करने के बारे में जानकारी देना है।

प्रशिक्षण के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर० के० गौतम, समस्त क्षेत्राधिकारी, थाना प्रभारी, विवेचकगण व समस्त सर्विलांश सेल/साइबर सेल/अपराध शाखा/एसओजी कर्मी तथा थानों के साइबर हेल्प डेस्क पर नियुक्त कर्मी/पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे।



## पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में जनपदीय पुलिस बल द्वारा जनपद में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये

### रखने हेतु पैदल गस्त कर आम-जनमानस को दिलाया गया सुरक्षा का भरोसा ।

आज दिनांक **22.03.2023** को श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोबा आर०के० गौतम के निकट पर्यवेक्षण में जनपदीय पुलिस बल द्वारा जनपद के संवेदनशील स्थानों पर प्रभावी पैदल गस्त की गयी तथा व्यापारी बन्धुओं से वार्ता कर उनको अपने-अपने प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरा लगाने व अफवाहों पर ध्यान न देने हेतु की गयी अपील, स्थानीय लोगों से आपसी सौहार्द बनाए रखनें, अराजकता फैलने वालों की सूचना पुलिस को देने की अपील की गयी ।

इसी क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा संवेदनशील स्थानों पर प्रभावी पैदल गस्त की गयी । स्थानीय लोगों से आपसी सौहार्द बनाए रखनें, अराजकता फैलाने वालों की सूचना पुलिस को देने की अपील की गयी तथा जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारियों द्वारा अपने-अपने सर्किल में तथा सभी थानाध्यक्षों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार, धार्मिक-स्थल, बस-स्टैंड, रेलवे स्टेशन ढाबा आदि जगहों पर पैदल गस्त करते हुए यातायात नियमों को उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करते हुए वाहनों के चालान व सीज करने की कार्यवाही की गई ।

इसी क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा शराब की दुकानों का निरीक्षण किया गया एवं सेल्समैन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए व यातायात नियमों के उल्लंघन करने पर वाहनों के **97** ई-चालान किये गये ।



महोबा पुलिस